

प्रेषक

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2005

विषय: केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में धनराशि स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: 69/18(1)/2005 दिनांक 19.2.2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार से प्राप्त तहसील स्तरीय कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रति तहसील रुपये 6.00लाख के हिसाब से कुल रुपये 300.00लाख की धनराशि विभिन्न जनपदों को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त के निवर्तन पर रखी गयी थी।

2. भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से रुपये 2.00लाख की धनराशि प्रति तहसील के हिसाब से संबंधित जिलाधिकारियों को निम्न प्रकार व्यय करने हेतु उपलब्ध करायी जानी है:-

- | | |
|---|---------------|
| 1. अर्थिंग, बिजली एवं अन्य सिविल कार्य हेतु | रु. 55,000.00 |
| 2. जेनरेटर की आपूर्ति हेतु | रु. 40,000.00 |
| 3. कम्प्यूटर कक्ष को संचालित करने हेतु फौसिलिटी मैनेजमेण्ट के मद में | रु. 25,000.00 |
| 4. आकस्मिक व्यय मद में (Pen drives, Printer Toners, Computer Stationery, Binding of Khatonis, CD's, CVT, Telephone line and Data Updation work through Private Agency, DAT Tapes, ect.) | रु. 80,000.00 |

कुल योग (प्रति तहसील)

रु. 2,00,000

3. भारत सरकार से प्राप्त धनराशि उत्तरांचल की सभी तहसीलों हेतु प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रथम चरण में प्ररिशिष्ट-1(संलग्न) में देहरादून एवं हरिद्वार जनपदों को छोड़कर समस्त जनपदों में पुरानी तहसीलों को

(2)

उपरोक्त रूपये 2.00 लाख की धनराशि प्रति तहसील की दर से संबंधित जिलाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. संलग्न परिशिष्ट में अंकित निम्न नव सृजित तहसीलों को भी, उपरोक्तानुसार कार्य कराने हेतु रूपये 2.00 लाख प्रति तहसील के हिसाब से धनराशि संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय:-

क्रमांक	जनपद का नाम	नई तहसील का नाम
1.	टिहरी	धनोली
2.	पौड़ी	सतपुली
3.	नैनीताल	रामनगर एवं कालाडुंगी
4.	पिथौरागढ़	बेरीनाग
5.	उधमसिंहनगर	बाजपुर, जसपुर, एवं गदरपुर

5. जनपद हरिद्वार को तहसील स्तरीय कम्प्यूटरीकरण हेतु कुछ धनराशि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से स्वीकृत की गई थी। अतः उन्हे तहसीलों के अवशेष कम्प्यूटरीकरण हेतु रूपये 4,28,497/-की धनराशि और उपलब्ध करा दी जाय। जनपद देहरादून में भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अलग से तहसील स्तरीय भूलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गई है अतः उन्हे इस मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जानी है।

6. तहसील स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के लिए फर्नीचर एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय उत्तरांचल शासन के रेट कान्ट्रैक्ट पर केन्द्रीय स्तर पर किया जा रहा है। जनपदों से तहसीलों में कम्प्यूटर कक्षों के तैयार हो जाने की सूचना शासन स्तर पर प्राप्त हो जाने के बाद फर्नीचर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर सीधे तहसीलों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

भवदीय,

(सोहन लाल)

अपर सचिव।

संख्या एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी(जनपद देहरादून को छोड़कर) उत्तरांचल।
2. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
3. निदेशक, एन0आई0सी0., देहरादून।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)

अपर सचिव।

उत्तरांचल में पुरानी एवं नई तहसीलों की स्थिति

क्रमांक	जनपद	पुरानी तहसील	नई तहसील	उप तहसील
1.	टिहरी	1. टिहरी 2. प्रतापनगर 3. घनसाली 4. देवप्रयाग 5. नरेन्द्रनगर	1. धनौली 2. जाखणीघार	1. गजा
2.	पौड़ी	6. पौड़ी 7. लैन्सडाउन 8. कोटद्वार 9. थलीसैण 10. धूमाकोट 11. श्रीनगर	3. गमकेश्वर 4. चोबट्टाखाल 5. सतपुली	
3.	चमोली	12. जोशीमठ 13. चमोली 14. पोखरी 15. कर्णप्रयाग 16. गैरसैण 17. थराली		2. गाट
4.	उत्तरकाशी	18. भटवाडी 19. डुण्डा 20. बड़कोट 21. पुरोला	6. गोरी 7. विन्गालीरौड	
5.	रूद्रप्रयाग	22. रूद्रप्रयाग 23. उखीमठ	8. जखोली	
6.	हरिद्वार	24. हरिद्वार 25. रुड़की 26. लखार		
7.	देहरादून	27. चकराता 28. देहरादून 29. विकारानगर 30. ऋषिकेश	9. लूनी 10. कमलरी	
8.	बागेश्वर	31. बागेश्वर 32. कपकोट	11. गरुड 12. काण्डा	3. काफलीगैर
9.	नैनीताल	33. हल्द्वानी 34. नैनीताल 35. कोश्याकुटीली 36. धारी	13. रामनगर 14. कालादुंगी 15. बैतालघाट 16. लालकुआ	
10.	अल्मोड़ा	37. अल्मोड़ा 38. रानीखेत 39. भिकियासैण	17. सल्ट 18. नीरुटिया 19. सोमेश्वर	20. द्वाराहाट 21. भंगोली 22. जैती
11.	पिथौरागढ़	40. पिथौरागढ़ 41. धारचूला 42. मुनरसारी 43. गंगोलीहाट 44. डीडीहाट	23. बेरीनाग	4. देवलथल 5. कंगालीरौड-ग
12.	ऊधमसिंह नगर	45. काशीपुर 46. किछा 47. सितारगंज 48. खटीगा	24. बाजपुर 25. जरापुर 26. गदरपुर	
13.	सम्पावत	49. सम्पावत	27. पाटी 28. पूर्णामिरी 29. लोहाघाट	6. बाराकोट